शरण | by Tatsha Gupta

तेरे दामन की छाँव में बाबा तेरी पनाह में मुझे रख लो चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा सांवरिया ओ कन्हैया ओ मेरे श्याम चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा

कहूं क्या गैर की तुमसे चोट अपनों ने दी है लुटाया खुद को जिन पे उन्हीं ने खुशियां ली हैं हुए बेगाने थे अपने किया है मुझको भी बावरा सांवरिया ओ कन्हैया ओ मेरे श्याम चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा

बड़े खुदगर्ज़ ये दुनिया काम के रिश्ते नाते सुखों में साथ हैं चलते हैं दु:ख में पीठ दिखाते दिया है धोखा सबने भरोसा तू ही है सांवरा सांवरिया ओ कन्हैया ओ मेरे श्याम चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा

पुकारा भक्त ने जब भी दौड़ के तू ही आया भराया भात कहीं पे कहीं पे चीयर बढ़ाया लाज राघव की भी रख लो करूँ बस ये ही मैं कामना सांवरिया ओ कन्हैया ओ मेरे श्याम चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा

https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a4%a3-by-tatsha-gupta/